

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2017/श्रावण 11, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 190
No. 291]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2017/SRAVANA 11, 1939	[N.C.T.D. No. 190

भाग—IV  
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

x'g i f'yl 1/11@LFkki uk foHkx

vf/kl ipuk

दिल्ली, 1 अगस्त, 2017

1 a Qk- 1@07@2016@x'g i f'yl &1@LFkki uk@2118&2125.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या यू0-11011/2/74-यूटीएल (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खंड (एस) के साथ पठित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 19 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या फाईल 1/07/2016/गृह पुलिस-1/स्थापना/302-309 की अनुसूची के आंशिक आशोधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निदेश देते हैं तथा घोषणा करते हैं कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची में बिन्दु संख्या 10 पर उल्लिखित मेट्रो पुलिस स्टेशन, लाजपत नगर को मेट्रो पुलिस स्टेशन नेहरू प्लेस के रूप में पढ़ा जाये।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
पवन कुमार, उप-सचिव (गृह)

**HOME POLICE (I)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 1st August, 2017

**F. No. 1/07/2016/HP-I/Estt./2118-2125.**— In exercise of the power conferred by section 10 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978) read with the clause (s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No.U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20<sup>th</sup> March, 1974, and in partial modification in schedule of the Government of National Capital Territory of Delhi's notification number F. No. 1/07/2016/HP-I/Estt./302-309 dated 19<sup>th</sup> April, 2017, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct and declare that the Metro Police station Lajpat Nagar mentioned at point number 10 in the schedule of aforesaid notification will be read as Metro Police station Nehru Place.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (Home)